64

॥ॐ अवलोकिनी। विवलोकिनी॥ प्रलोकिनी॥ जिह्वापविशोधनी॥ सर्व
सत्वेम मोचन्थ॥ काय शुद्ध स्मरणिधारणी स्वाहा॥ धारणी २१॥ क्रमसु
धर्मकंठप॥ श्यामामोनि॥ ऊर्ण॥ नय॥ गिन॥ श्रावन॥ सात्रु॥ विद्या॥ स
ड॥ नगदपुडा॥ सवतिनिडा॥ श्रमोघपाश लोकेश्वर आह्वाथ॥ ।

धम तुया ङ्क॥ध॥ ङ्गनि मोती॥ म्ह॥ कनू धम॥ धम॥ ङ्गनि स्वन्हि ग॥
नु॥ ङ्गनि डयङ्गा॥ ङ्गनि चतु स्कन्ध॥ प्रज्ञान नादियाङ्ग॥ थव
॥ध स्म ङ्गनि प्रज्ञा॥ नि लाम्व लनी॥ धातु ङ्गनि डयाया॥ सदा
कनू धम स्वरूव॥ सयासम नङ्गा गव॥ ष नि धर्म्म धातु विश्व
न॥ यदा॥ शून्य ताकनू धम हि नजदि॥ धर्म्म धातु सीव सय॥ जो जि
न्ह जन्हि सन ह ङ्गसा॥ नहि बुद्धसि धर्म्म ङ्गनि सन॥ नस ४ ज्ञान
वङ्गि ससा यस॥ ष॥ ङ्गनि॥ नाम॥ ङ्गनिवं॥ धम॥ ङ्गनि॥ स॥ तु ङ्ग

नि.या ॥ ४. ह्रूं नि कर्म्ममुद्रा ॥ ७ ह्रूं नि समयमुद्रा ॥ ५ ह्रूं नि धर्म्म
मुद्रा ॥ ६ ह्रूं नि महामुद्रा ॥ ४. ह्रूं नि भावना ॥ ७ ह्रूं नि सामन्त्रिक ॥
५ ह्रूं नियाहुला ॥ ६ ह्रूं नि. गाथा ॥ ४ ह्रूं निस्वस्थी ॥ ७. ह्रूं नि जलैव
५. ह्रूं नि वह्नि ॥ ६. ह्रूं नि यवन ॥ नमो महाभैरवनायकी ॥ वज्रस
त्व.थ्या र्थ्या यालम स्थ्रर्का थ्यानम ॥ रग बान. बाथिविरू. धर्म्म
धातु नि रू थ्य मैव ॥ ॥ ॥ रग का नं शू क्रुसि रू कं. न कानैव
कासी रू कं. म या शु यामील न रू. श्री स्व र्थ्य नशी नूथ ग ॥ अथव

शू क्रु व क्रु मिश्रा शवश्रा ॥ ॥ ग का नं शू क्रुसि रू कं म कानैव
कं सी रू कं ॥ अथ यत्र क्र व सी या मा. अग्ना नयति. कल्यि मैव ॥ शुरु ॥

१ ह्रूं वज्र॥
२ ४ पाताल॥
३ वं ४ मर्त्यमनुस॥
४ ६ स्वर्ग ४॥

रक्तवर्ण॥
हिंगुलवर्ण॥
सीपानवर्ण॥
सिन्धूरसम॥
कपिलवर्ण॥
सूर्य्यसम॥
धूम्रवर्ण॥
आकाशवर्ण॥
काखयावर्ण॥
हिंगुवर्ण॥

सिन्धूरसम॥
नागवर्ण॥
सूर्य्यदशसहस्रतेज॥
सूर्य्यकोटिसमतेज॥
कल्पाग्निसमनिर॥
शीतरक्तसमप्रभा॥

क॥ सिन्दूरसमतेज॥
ख॥ नक्षत्रासूर्य्यसमतेज॥
ग॥ श्रीमूलवर्ण॥

अग्निसम॥
सूर्य्यसहस्र॥
धूम्रवर्ण॥
कृष्णाञ्जनवर्ण॥
धूम्रवर्ण॥
अग्निसहस्र॥
यक्षवर्ण॥
सूर्य्यसंनिभाग्निसम॥
हिमसमवर्ण॥
पीतनीलाञ्चवर्ण॥

अग्निसूर्य्यवर्ण॥
धूम्रवर्ण॥
नीलकञ्जवर्ण॥
जावत्रवर्ण॥
कुङ्कुमवर्ण॥
सूर्य्यवर्णसहस्र॥
धूम्रवर्ण॥
श्रीमूलवर्ण॥
कृसमप्रभ॥

कृष्णवर्ण॥
नक्षत्रवर्णसूर्य्यसम॥
पीतवर्णयक, अग्निविद्युतेज, प्यासङ्ग आदे
समतेज॥ यक्षा नाग यक्षा नाव। पिशाचादि
पिशाच बाज्कसानपि॥ त्रैलोक्य सकलवर्ण
देवासुर मानुषाः॥ देवसमान यदि। सर्वसाधक
सम्यक्लना॥ सकान यह लक्षणं॥
धूम्रवर्ण ज्ञालाकोटि सदृशतेजसम॥
रक्तवर्ण सदृशाग्नि तथा सम तेज॥

श्रीवज्रपाणि ५

॥ ॐ गुरुरत्नेभ्यो नमः॥ श्रीवज्रसत्वाय॥ ॐ नमः श्रीवज्रपाणये॥ ३॥
ॐ आः हूँ श्रीमद्वज्रसत्वाधिपः॥ सर्वसत्वहितार्थाय गुरुपादप्रसाद
तः॥ वर्षापन प्रयक्ष्यन्तु, वज्रपाणिं नमाम्यहं॥ ॐ आः हूँ॥ ॐ स्वभा
वशुद्धाः सर्वधर्माः, स्वभावशुद्धोसं॥ सटिति हूँकार वज्रपाणिस्व
भावात्मानं, वज्रपाणिं तु यं तावयतु॥ स्वहृदि विश्वदलपद्म
मध्ये सर्यमालि त, हूँकारं ध्यायात॥ ॐ वज्रपाणि वसन्त्र वाम कर्ल यन्त्र

ॐ वज्रपाणि हूँ॥ दक्षिणकर सर्व वज्रपाणि हूँ॥ मूर्ध्न्यादिषु॥ ॐ वज्र
त्वम हूँ॥ मस्तुल॥ ॐ वज्रपाणि स्नानं मम कुरु हूँ॥ ॐ धूप गन्ध मम कुरु हूँ॥ ॐ आ
त्मानं मम कुरु हूँ॥ ॐ आः हूँ वज्रपाणि वर्षधारा पातनाय स्वाहा॥ ततः
स्वहृदि हूँकार, रश्मिभिः हूँ लिलाग्रकनिष्ठ नागानां तालि कृ वज्र
पाणि सर्वतथागतसहितं अष्टौ नागराजा सर्वापवादानू आकर्षया
मि॥ ॐ वज्राङ्कुश अदि॥ आकर्षन॥ ॐ वज्रपाणि सपरिवाराय ...

स्वाय श्रियि ख्राःमाय श्र स्वाक्र क्रा स्येव लैक्रू श्रकि विश्रमसाविय मेवजर्दै हट ह्रौं ३
श्रिवलि क लीगानव र्लकदश्र स्यल थैव स्नु ह स्ह्राद्दय ह्रँ श्र स्मसर्मन्क्षि कमाट
मक्षावलसाधय स्नमानय ऑमां सँग्रु ह्य ह्रँ लौंकह्नु षनुव झानमाल्लु ऊति
मगवलेन्वू जालय त्राद्र स्त्र सनम ६ स्वा। श्रगियमाला मत्र ॥ ॥
समसर्वाःसायविघ्नन केरू व ६ सर्वथा ग्राद श्रमाघरल्लु मरू नौषम स्ह्राटयक्ष
स्रुम यस्दँ ग रफ्रौं मौंदँ हटश। ॥ गरैंक्रौं क्ष ह्रौं गहल्ल यी यः मसल विघ्ननिवार्यन्त
यविस्ह्राटय श्रग्न कालस्व ल्लु नश्रवजलस्त न क्ति ख्रिश्रपनमुक्ल नलिविश्र
स्रुकौश्रन लाम्भियपनि स्या गङ्गा गक्क ञ्जानमै स्नायस्या का ॥ ॐ गं गौं रु ३

64

[illegible] म सं ८० [illegible] ज्ञाक्रा [illegible] द्वादशनाय [illegible] यायस्यामि [illegible]

स्वरूपमनाय [illegible] विरूपनवनस्वायस्य श्रीं गं गं नमः स्वाहा ॥ [illegible]

॥ ॥ॐ सिद्धिविनायकसिद्धि सिद्धि [illegible] मंत्र [illegible] यन्त्र ॥

॥ [illegible] गल [illegible] स्थमालामन्त्र ॥

ह्रीं जूं ह्रौं क्लीं क्लीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ॐ

अ सा यन्त्र ॥ पञ्च ग्रास कायस्य [illegible] नमो नाम ॥

हृ स्थिवा स्थान [illegible] ज्ञाय [illegible] पिरूप [illegible] यानी [illegible]

द किसि कन्तु [illegible] चिक्र [illegible] नायिलुया [illegible]

ह सल त्रिका [illegible] चिकाः बाधिविरूप [illegible] लिहवा ॥ ॥ पाय [illegible]

न समरू विरूप [illegible] नमरूवा [illegible] लाजाय स्वरूप ॥ [illegible] यगावायु

स्वरूप देव ॥ [illegible] लिस्वरूप देवी ॥ ॥ सालो [illegible]

यस्त्र तूयवा वलि स मयन, ब्रह्मास्त तूयवा वङ्घ ष्ठ द्वनीसिद्धि, दृ थिङ्न सी
साव, थ । स्ववूयरा, वज्रघ मगैन, दृ थीस । समयन्क्लीब्रह्मा । ख त्रङ्न
उयाय, मालरुनवङ्गं, आलि, वुन्ड नातीश्रृंलासिद्धि स्वतूय । मावङ्
वास्त्रस्त, कालि, तर्थ्यनाती, यिगैला, सैम्याय स्वतूयवा । ॥ ७ का या स
स्ववङ्कं, त्रकाया, शम्भु स्व नात्मक । अर्द्ध र्चयलनाथक, विरुनामीमतूयवं
। नाया माघसिद्धिर्वै, स्तलाब्रह्मासयैवर्के । ॥ र रूमी स्वराव ।

निकीवायू स्वराव । अस्ल, आकाश स्वराव । कषायथा ज्ञान स्वराव । त्रता
यीकुलानृक्रमस्था । अकय ठ न यय यज । । त्रय वैनायनी वाजा । श्रृ श्रीरवस्त
ठथस्त वय द्धिनी यावर्क, वलनाजस्य । उग्ड गजत वलस । त्रबू वग्रे स्तसी
यानिगार स्त्य । ठत्रेश्च स रुध रुद, वर्गस्वरुथाइ माघसिद्धि स्य । डाउ
श्री श्री ६ ठ [illegible] नमः । प्रल्मेरश्रीश्यू स्या प श्री म स्थ । ॥ । ।
र श्री माघसिद्धि, नाव तूयवा अभिमारु विदुवूथ । त्र लसीरूय, वेषा तूया ।
वैरावन, डाकान तूया । अश्रीश्य, डकाव तूया । वक्तिगनारि तूया । दैक

पृथिवीयथ॥ ॥२४॥ हूं धातु १ ला॥ ओं मुंत धातु २ हि॥ ओं त्रां धातु ३ ह्रीं य
॥जिह्वा धातु ४ सिद्धू॥ काय धातु ५ काय॥ गन्ध धातु ६ भाग॥ रस धातु ७ नं
कुस॥ स्पर्श धातु ८ हृहस॥ आय धातु ९ तयवजि॥ मन धातु १० वायु॥
॥ कर्ममपन्द४॥ ॥२४॥ ओं नमः श्री वज्रसत्वाय॥ तथा॥ सि
ध्वकवीन श्री॥ ओं धर्म्म धातु वागीश्वर मन्त्र त्वाहजि॥ सधर्म्मानी धर्म्म धाता
श्रासना वज्रपाय॥ श्री सह्वजगीताय्नकां॥ धर्म्म धातु समवत्मा हूं जि॥
॥ शून्यनीह्यान वज्रस्वरा वाक्य कादे॥ शून्यता सर्व्वधर्म्मानी धर्म्म धातु वि

शुद्धयते॥ धर्म्म धातु ३ वा॥ धर्म्मा स्फुस्फु वज्र जित्री हूंजि॥ य धा श्री समाजं॥
ओं धर्म्म धातु वज्रस्वरा वाक्य कादे हूं ति॥ धर्म्म ताया सर्व्व तथागता श्री जि
सर्व्वजि॥ ओं स्थमा धर्म्म धातु वि शुद्ध न॥ समन्ताय न धर्म्म धातु वका स
न॥ ओं स्थावय मन्त्रवाय न॥ धर्म्म धातु त्रिविधतु वाक्य नं॥ सर्व्व तथागत
कुलस्कंधनाधि॥ दशपारमिताबुद्धा॥ हूं जि धर्म्म काय॥ धे॥ हूंजि
धर्म्म काय॥ स्मि॥ हूं जिनिर्म्माण काय॥ ध्म॥ हूं जि संभोगय काय वकुं॥
हूं जि महासुख काय॥ स्वाभाविक काय शुभ॥ ०व म व वज्रः गर्द नमर्म्मी